

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021 — श्रावण 8, शक 1943

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2021

अधिसूचना

क्रमांक - 7640/विधान/वि.स./2021. — सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा का ग्यारहवां सत्र जो सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2021 को आरंभ हुआ, आज शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021 को सायं 6:00 बजे अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराडे)
प्रमुख सचिव.